

प्रेस नोट दिनांक 20.03.2021

थाना मीरगंज जनपद बरेली ।

थाना मीरगंज #bareillypolice द्वारा मोबाईल लूट की घटना का 24 घन्टे के अन्दर अनावरण कर दो अभियुक्तों व एक बाल अपचारी को पकडकर लूट के 02 अदद मोबाइल व लूट में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल की बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय जनपद बरेली व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज महोदय के पर्यवेक्षण में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक मीरगंज के नेतृत्व में मीरगंज पुलिस द्वारा "दिनांक 17.3.2021 को समय 8.30 बजे श्री इशकत अली पुत्र अफसर अली निवासी मो0 सराय खाम कस्वा व थाना मीरगंज जिला बरेली से कस्वा मीरगंज में मोबाईल लूटा गया था जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.03.2021 को थाना मीरगंज पर मोबाईल लूट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 87/2021 धारा 392 भादवि0 तथा दिनांक 18.3.2021 को समय करीब 08.30 बजे रात को श्री अंशू गुप्ता S/0 हरीओम गुप्ता पता मो0 मेवात तहसील थाना मीरगंज जिला बरेली से एक मोबाईल लूटा गया था जिसके सम्बन्ध में दिनांक 19.3.2021 को मु0अ0सं0 88/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था । कस्वा मीरगंज में लगातार मोबाइल लूट की घटना घटित हो रही थी ।" जिनके अनावरण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिनांक 19.03.2021 उ0नि0 ललित कुमार मय पुलिस फोर्स के वाहनों/संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे । कि दौराने चैकिंग अब्दुल्ला गंज तिराहा कस्वा मीरगंज पर एक मोटरसाईकिल पर तीन नवयुवक व्यक्ति आते दिखाई दिये रोकने का प्रयास करने पर पीछे मुडकर भागने का प्रयास किये फिसलकर गिर पड़े पुलिस बल द्वारा मौके पर उत्साह के साथ दिनांक 19.3.2021 को समय करीब 22.10 बजे रात्रि को गिरफ्तार कर लिया गया । जिनके कब्जे से उपरोक्त अभियोगों में लूटे गये मोबाईल बरामद हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। तथा मोबाईल लूट की घटना का 24 घन्टे के अन्दर थाना मीरगंज पुलिस द्वारा अनावरण कर दिया गया है ।

अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.कौसर पुत्र सतीश मिश्रा निवासी जयबिहार नजफगढ नई दिल्ली
- 2.वीरेश पुत्र नत्थू सिंह निवासी समसपुर थाना मीरगंज जिला बरेली

बरामदगी -

एक मोबाइल ओप्पो कम्पनी का सम्बन्धित मु0अ0सं0 87/2021 थाना मीरगंज जिला बरेली
एक मोबाईल वीवों कम्पनी का सम्बन्धित मु0अ0सं0 88/2021 थाना मीरगंज जिला बरेली
लूट में प्रयुक्त मोटरसाईकिल नम्बर DL9S 7541

आपराधिक इतिहास:-

- 1.कौसर पुत्र सतीश मिश्रा निवासी जयबिहार नजफगढ नई दिल्ली ।

मु0अ0सं0 87/2021 धारा 392 भादवि

मु0अ0सं0 88/2021 धारा 392 भादवि

- 2.वीरेश पुत्र नत्थू सिंह निवासी समसपुर थाना मीरगंज जिला बरेली ।

मु0अ0सं0 87/2021 धारा 392 भादवि

मु0अ0सं0 88/2021 धारा 392 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 ललित कुमार थाना मीरगंज बरेली
- 2.उ0नि0 बलराज सिंह थाना मीरगंज बरेली ।
- 3.का.2089 चमन राणा थाना मीरगंज बरेली
- 4.का0 1715 विनीत कुमा थाना मीरगंज बरेली
- 5.का0 1445 निशान्त कुमार थाना मीरगंज बरेली ।

**प्रभारी निरीक्षक मीरगंज
जनपद बरेली ।**